

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया अपने कर्मचारियों के लिए दूसरा कोविड-19 टीकाकरण शिविर आयोजित करेगा

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जामिइ) अपने कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी के लिए 1 से 5 जून, 2021 तक दूसरे कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन कर रहा है।

टीकाकरण शिविर का आयोजन डॉ. एम.ए. अंसारी स्वास्थ्य केंद्र और विश्वविद्यालय के दंत चिकित्सा संकाय द्वारा जिला स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को उनके पति/पत्नी सहित 45 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग में वैक्सीन की पहली खुराक सुबह 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी।

इससे पहले, प्रो. नजमा अख्तर, कुलपति, जामिया ने विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों से अपने परिवार सहित बड़ी संख्या में टीकाकरण कराने का आग्रह किया। उन्होंने देश को कोरोना वायरस संकट से मुक्त करने के लिए इसे एक व्यक्तिगत और सामूहिक मिशन के रूप में देखने की अपील की।

प्रो. अख्तर ने यह भी कहा कि शिक्षक; जिन्हें समाज के अन्य वर्गों द्वारा आदर्श माना जाता है, उन्हें अपना व्यक्तिगत उदाहरण पेश करना चाहिए और दूसरों को जैसे- अपने प्रियजनों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को झिझक दूर करने और टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

कुलपति ने जोर देकर कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चिकित्सा एहतियात के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, जोकि टीकाकरण है। यही हमारे शैक्षणिक और व्यक्तिगत जीवन में खुद को सुरक्षित बनाने और सामान्य स्थिति की ओर बढ़ने में हमारा योगदान होगा।

पहला कोविड-19 टीकाकरण शिविर 12 से 13 अप्रैल, 2021 तक जामिया में आयोजित किया गया था।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया